

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 8] दिल्ली, अक्टूबर 26—नवम्बर 1, 2018, बृहस्पतिवार/कार्तिक 4—कार्तिक 10, 1940 [रा.रा.रा. क्षे.दि. 643  
No. 8] DELHI, OCTOBER 26—NOVEMBER 1, 2018, THURSDAY/KARTIKA 4—KARTIKA 10, 1940 [N.C.T.D. 643

## भाग—II-I PART-II-I

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन  
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters, reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications.

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2018

सं.—मु.चु.अ./चु.सं./102(74)/2018/30456.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

### भारत निर्वाचन आयोग

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2018

**सं.56/2018 (II) रा.दल.अनु- III.**—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा 2 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, अपनी अधिसूचना सं. 56/2018/रा.दल.अनु.III, तारीख 13.04.2018, में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात:-

1. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी -III (रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल) में-

(i) स्तम्भ 1, 2 व 3 के अन्तर्गत क्रम सं. 2069 पर विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः अन्तःस्थापित की जाएंगी-

क्रम सं.	पार्टी का नाम	पता
2070	भारत बाहिनी पार्टी	मातृमंदिर, प्लॉट नं. ई- 185, राम पथ, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान- 302019.
2071	मक्कल नीधि मय्यम	#नया 04 # पुराना 172, एल्डमस रोड, अलवरपेट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600018
2072	नवा समाज पार्टी	मकान नं. 5-7, बुद्धाराम ग्राम, गोपालपेटा मण्डल, वनापथी जिला, तेलंगाना स्टेट।
2073	सर्वशक्ति दल	डी-60, देव नगर, मुरलीपुरा, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान- 302039
2074	लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी	खसरा नं. 21/9/1 व 10/2, मंगोलपुरी इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज- I, टी.वी.एस एजेन्सी के सामने, नियर आई.बी.पी पेट्रोल पम्प, मंगोलपुरी, नई दिल्ली- 110083.
2075	न्यू मदर लैंड पार्टी	एफ-111, साउथ सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226025
2076	भारतीय जन सत्ता पार्टी	भवन संख्या - 11, मुख्य ग्राम + पोस्ट - भादवासी, भाया - कटराथल, जिला- सीकर, राजस्थान- 332024
2077	आदर्श संग्राम पार्टी	डी/एस- 1252, सेक्टर- डी, एल.डी.ए. कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226012.
2078	कल्याण क्रान्ति पार्टी	# 57, दुसरा तल, 3 मेन अदित्यानगर, 8 फेज, जेपी नगर, बैंगलुरु, कर्नाटक - 560062
2079	लोकतांत्रिक जनता दल	मकान नं. 861 पी, सेक्टर-15, पार्ट- II, गुरुग्राम, हरियाणा - 122001
2080	आपकी अपनी पार्टी (पीपल्स)	खसरा नं. 19/26, नियर अमृत विहार, मेन रोड बुराडी, बुराडी, नई दिल्ली- 110084
2081	ऑल इंडिया मक्कल नलवालवु कॉन्ग्रेस	नं. 2/259, ओन्दीबदानायकनपट्टी, पलकानुथू पोस्ट, डिंडीगुल जिला, तमिलनाडु- 624619
2082	ऑल इंडियन्स पार्टी	डोर नं. 30-3-11, असम गार्डन्स, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश- 530020
2083	मजदूर किरायेदार विकास पार्टी	प्लॉट नं. 116, म्युनिसिपल नं. 500/3ई/4, ब्लॉक नं. 30, गली नं. 6, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली- 110032
2084	माई इंडिया पार्टी	447/265, द्वितीय तल, पूनामल्ली हाई रोड, अंमजीकरै, चेन्नई, तमिलनाडु- 600029
2085	विकासशील इंसान पार्टी	घर अपना अपार्टमेन्ट, वार्ड नं. 38, फ्लैट नं. 604, फेज - 03, अभियंता नगर, रंजन पथ, पो.ऑ.- दानापुर कैन्ट, पी.एस-रूपासपुर, जिला-पटना, बिहार- 801503
2086	लोकजागर पार्टी	प्लॉट नं. 17, मैफिल, सन्मार्ग नगर, हुडकेश्वर रोड, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र- 440034
2087	अभिनव राजस्थान पार्टी	सी-14, गांधी नगर, मेड़ता सिटी, जिला- नागौर, राजस्थान- 341510

2088	पंच पार्टी	कैलाश चन्द्र मीना खोदकी धानी गांव, ग्राम व पोस्ट- रैसना, तहसील- नदोती, जिला- करूली, राजस्थान- 322215
2089	भारतीय अनारक्षित पार्टी	मकान नं. 08, आनन्दवन, एन.एच-02, नवादा, पोस्ट- औरंगाबाद, जिला- मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281006
2090	पीपल्स रिप्रेजेंटेशन फॉर आईडेंटिटी एंड स्टेटस ऑफ मिजोरम (प्रिज्म) पार्टी	16- अपर रिपब्लिक, आइजोल, मिजोरम- 796001
2091	राष्ट्रीय जनराज पार्टी	28-ए, विशाल कुंज, दहतोरा रोड, बोदला, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282007
2092	गरीब बेरोजगार विकास पार्टी	ग्राम- चम्पतपुर, पो.ऑ- बलिया, तहसील- आंवला, विकास-खण्ड- आलमपुर जाफराबाद, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश- 243402
2093	साफ पार्टी	547/229, जलालपुर, राजाजी पुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226017
2094	राजस्थान जनता पार्टी	ग्राम- नैथला, पोस्ट- निठारी, तहसील- मालाखेड़ा, जिला- अलवर, राजस्थान- 301001
2095	राष्ट्रीय सहयोग पार्टी	एफ- 130/4, ग्राउंड फ्लोर, गौतम नगर, नई दिल्ली- 110049
2096	जागो हिन्दुस्तान पार्टी	मकान नं. 368, मोहल्ला- कल्यानी देवी सिविल लाईन्स, जिला- उन्नाव, उत्तर प्रदेश- 209801
2097	न्यू इंडिया यूनाईटेड पार्टी	नं. 4, द्वितीय तल, द्वितीय क्रॉस, डी.आर.वेन्ड्रे लेआउट, गुब्बी क्रॉस, 350/1/4, कोठानूर, बेंगलूर, कर्नाटक- 560077
2098	जय स्वराज पार्टी	10-105/1/बी/2, प्रथम तल, रोड नंबर- 2, नई गड्डीनाराम कॉलोनी, दिलसूक नगर, हैदराबाद, तेलंगाना - 500060
2099	खुशहाल किसान पार्टी	मकान नं.- 125, अनाज मण्डी के पास, नागर रोड दीग, तहसील- दीग, जिला- भरतपुर, राजस्थान- 321203
2100	बहुजन लेफ्ट पार्टी	मकान नं. 6-73, एससी बाड़ा, पेड्डालिंगापुर गांव, मंडल इल्लंथाकुन्ता, जिला- राजन्ना सिर्सिल्ला, तेलंगाना स्टेट- 505405
2101	आम नागरिक युवा पार्टी	ग्राम- नल्हड़, डाकखाना - नल्हड़, तहसील व जिला- नूह, हरियाणा- 122107
2102	अम्बेडकर समाज विकास पार्टी	मकान नं.- 49, मुहल्ला- तिलक नगर, युमना नगर, तहसील- जगाधरी, जिला- युमना नगर, हरियाणा- 135003
2103	जन जागृति पार्टी	डी.नं. 78-12-2, फ्लैट नं. 101-102, शान्ति रेसिडेन्सी, स्यामला नगर, राजमुंद्री, पूर्व गोदावरी जिला, आन्ध्रा प्रदेश- 533103
2104	नवसर्जन भारत पार्टी	मकान सं.- 492, फलफलिया, कृष्णा पेट्रोल पंप के सामने, बाघधरा रोड, दादरा, दादरा एवं नागर हवेली- 396193
2105	भारतीय वीर दल	खेवट/खसरा नं.- 39/56, मुस्टिल नं.- 14, मौजा- घुड़ासन, पोस्ट- तिगाँव, बल्लबगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा - 121101
2106	हिन्दुस्तान तहरीक ए-इंसाफ	मकान नं. 1-12-386, राजावडी, पटवाडी नाका बहार भुज, तहसील- भुज, जिला- कच्छ, गुजरात- 370001
2107	रायता भारत पार्टी	सेक्टर नं. 31, फ्लैट नं. 31/ए, नवानगर, बागलकोट, कर्नाटक - 587101

2108	कर्नाटक कार्मिकर पक्ष	नं. 120, प्रथम तल, सेन्ट जोन्स चर्च रोड, नियर कोल्स पार्क, बेंगलोर, कर्नाटक - 560005
2109	नाम इन्दियर पार्टी	73एफ/1ए, पोलपेट्टई, थूथुकुडी, तमिलनाडु- 628002
2110	ऑल इंडिया एम.जी.आर. मक्कल मुन्नेत्र कझगम	फ्लैट नं.- ए-4, श्रीनिवास आर्केड, नं.- 1/2, अरुणाचलम रोड, चेन्नई, तमिलनाडु- 600093
2111	ऑल इंडिया प्रजा पार्टी	मकान नं.- 5-1-240, द्वितीय तल, जामबाग, स्ट्रीट नं.- 17, फ्लावर मार्केट के समीप, हैदराबाद, तेलंगाना- 500095
2112	साँझी विरासत पार्टी	506, चन्द्रलोक कॉलोनी, गली नंबर- 3, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली- 110093
2113	भारतीय जनता विकास पार्टी	डी- 4/2, सेक्टर- 20, रोहिणी, दिल्ली- 110086
2114	राष्ट्रीय अतुल्य युवा पार्टी	प्लॉट नं. 291, फ्लैट नं. 301, शिवनगर- 1, मुरलीपुरा, जयपुर, राजस्थान- 303328
2115	हमदर्द पार्टी	मोहल्ला- सैय्यदवाडा, पोस्ट- सट्टी मस्जिद, शहर- गाजीपुर, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 233001
2116	ऑल इंडियन राजीव कांग्रेस पार्टी	41/238, आलापुर हाऊस, राधाकृष्ण मंदिर लेन, नरही, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
2117	जनतांत्रिक विकास पार्टी	201, पी.मॉल, दूसरा तल, एक्जिबिशन रोड, जिला- पटना, बिहार- 801503
2118	यूथ इंडिया पीस पार्टी	असेस्मेंट नं.- 18, ग्राम- काठा नं.- 215, यशवंतपुर हुबली, बेंगलोर नार्थ तालुक, बेंगलोर, कर्नाटक- 560022
2119	मरूमलर्ची जनता काची	62/5, पिल्लैयार कोविल स्ट्रीट, पप्पिरेडुपट्टी- पोस्ट व तहसील, धर्मापुरी जिला, तमिल नाडु- 636905
2120	भारतीय अपना अधिकार पार्टी	किरार छात्रावास के पास, रामपुरी आऊ खाना कला शब्द, प्रताप आश्रम, जिला- ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474012
2121	ग्रीन पार्टी ऑफ इंडिया	36-सी, गोविन्दपुरी, रामनगर, सोडाला, जयपुर, राजस्थान- 302006
2122	राष्ट्रीय महाजन शक्ति पार्टी	मकान नं. 843/39, शिव उत्सव वाटिका, न्यू रेलवे स्टेशन मार्ग, अटर रोड, भिण्ड, मध्य प्रदेश- 477001
2123	इंडिया प्रजा बंधु पार्टी	मकान नं. 18-1-317/ए/68/1, शिवाजी नगर, उप्पुगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना- 500053
2124	आदर्श न्याय रक्षक पार्टी	ग्राम व पोस्ट- मातौल, तहसील-खरगापुर, जिला- टीकमगढ़, मध्य प्रदेश- 472115
2125	ऑल इंडिया जननायक मक्कल कझगम	नं.- 137, केसवा गार्डन, तीसरा ब्लॉक, डेमेलिएस रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600012
2126	तेलंगाना जागीर पार्टी	मकान नं. 4-32/1, मुनुगानूर -गाँव, अब्दुलापुरमेट- मण्डल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना स्टेट- 501511
2127	ऑल इंडिया जयहिंद पार्टी	डोर नं.- 22-77, भगत सिंह नगर, छठी लेन, यानमलाकुंडरू, विजयवाड़ा, आन्ध्रा प्रदेश- 520007
2128	स्वदेश जन सेवक पार्टी	जे.पी.नगर, नई बस्ती, प्रेमचक उर्फ उमरगंज, बलिया, उत्तर प्रदेश- 277001

2129	सोशल जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं. 2-97, चिनाराविराला गाँव, हयातनगर- मंडल, रंगा रेड्डी- जिला, तेलंगाना स्टेट- 501505
2130	कांशीराम बहुजन दल	खाता नं. 208, का अराजी नं.- 159एम/0.0810, गांव- अली खानपुर, पी.एस.- लाईन बाजार, तहसील- सदर, परगना- हवेली, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222132
2131	नई क्रान्ति पार्टी	बाब मृत्युजयनाथ मंदिर, कुम्हारन टोला प्रथम, गोला गोकर्णनाथ, जिला- लखीमपुर- खीरी, उत्तर प्रदेश- 262802
2132	तेलंगाना प्रजला पार्टी	मकान नं.- 12-13-830/15, गोकुलनगर, स्ट्रीट नं. 1, तारनाका, सिकन्दराबाद, तेलंगाना- 500017
2133	भारतीय अमृत पार्टी	खसरा नं. 661/3, कचनारिया, भोपाल रोड बायोरा, जिला- रायगढ़, मध्य प्रदेश- 465674
2134	अन्न तमिलगा राइजिंग कझगम	223, जीएसटी रोड, क्रोमपेट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600044
2135	भारतीय धर्मनिरपेक्ष पार्टी	मकान नं. 146, ग्राम- खडगपुर, पोस्ट- चौबेपुर, थाना- चौबेपुर, जिला- कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 209203
2136	छत्तीसगढ़ एकता पार्टी	मकान सं. 182/2, वार्ड नं. 08, बड़े पडरमुदा रोड, जमगहन, तहसील- मलखरोदा, जिला- जांजगीर चम्पा, छत्तीसगढ़- 495691
2137	नवरंग कांग्रेस पार्टी	डी.सं. 866/1, पेडवड्लापुडी गाँव, मंगलगिरी मंडल, गुण्टूर जिला, आन्ध्र प्रदेश- 522302
2138	जनता दल हिन्दुस्तानी	खाता नं. 64 (ओल्ड), प्लॉट नं. 370 (ओल्ड), न्यू प्लॉट नं.838,839,744,745, थाना नं. 314, ग्राम- आबिला, थाना- मुफसिल, अंचल- मानपुर, जिला- गया, बिहार- 823003
2139	ऑल इंडिया समता पार्टी	मकान नं. 23-8/3, मिलीनियम टाउनशिप शादनगर, रंगा रेड्डी जिला, फरक्कोनगर मंडल, तेलंगाना स्टेट- 509216
2140	राजनैतिक क्रान्ति दल	मकान नं. 55, बाडुजई द्वितीय, निकट पुराना ओवर ब्रिज, जिला- शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश- 242001
2141	विश्व आदर्श भारत पार्टी	मकान नं. 251, मेगा पैथोलॉजी, कोर्ट के पीछे, सूख विलास कॉलोनी बड़वानी, तहसील- बड़वानी, जिला- बड़वानी, मध्य प्रदेश- 451551
2142	सर्वधर्म पार्टी (मध्य प्रदेश)	120/1, अशोका गार्डन, तहसील – नजूल, जिला – भापाल – 462023, मध्य प्रदेश
2143	बुंदेलखंड विकास दल	द्वारा श्री शिव नारायण खरे (एडवोकेट), 116/3 शिवालय, किशोर गंज, टाउन एरिया, कुलपहाड़, जिला – महोबा, उत्तर प्रदेश – 210426

- (ii) क्रम सं. 25 के सामने 'आप सबकी अपनी पार्टी' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों 'विनायका हार्ट मेन रोड पर, तारबहार, वार्ड नं. 15, विलासपुर, छत्तीसगढ़-495001' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) क्रम सं. 93 के सामने 'अखिल भारतीय जन संघ' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों 'टी-14, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज -2, नई दिल्ली-110020.' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (iv) क्रम सं.1043 के सामने 'लेबर पार्टी ऑफ इण्डिया (बी.बी. प्रसाद)' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों 'ए-160, दूसरी मंजिल, विकास मार्ग, शकरपुर, मेट्रो स्तंभ संख्या 42 के पास, दिल्ली - 110092' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) क्रम सं.1396 के सामने 'प्राउटिस्ट ब्लॉक, इंडिया' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों 'द्वारा श्री रमेश कुमार, एच.एन.ए-37 (खसरा न. 2167/845), हर्षरूप कॉलोनी, फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली- 110074' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) क्रम सं. 2043 के सामने 'युवा तेलंगाना पार्टी' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों 'प्लॉट नं. 143 & 144, रॉक टाऊन कालोनी, अलकापुरी, मन्सूराबाद, एल.बी. नगर, हैदराबाद-500068, तेलंगाना' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vii) क्रम सं.549 के सामने स्तम्भ 2 पर विद्यमान प्रविष्टियों अर्थात् 'भारतीय सर्वजन हितेय समाज पार्टी' को, प्रविष्टियों 'भारतीय सर्वजन हिताय समाज पार्टी' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी- IV (मुक्त प्रतीकों की सूची) में-

- (i) क्रम सं. 161 पर विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी-

**"162. चाबी**

(अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)"

आदेश से,  
एन. टी. भूटिया, सचिव  
भारत निर्वाचन आयोग

आदेश से,

चरनजीत सिंह, चुनाव अधिकारी, (सी0 ओ0 ई0), दिल्ली

**OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 23rd October, 2018

**No. CEO/COE/102(74) /2018/30456.**— The following is published for general information:—

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th October, 2018

**No.56/2018(II)/PPS-III.**—In pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968, the Election Commission of India hereby makes the following further amendments to its Notification No. 56/2018/PPS-III, dated 13<sup>th</sup> April, 2018, as amended from time to time, namely: -

1. In Table III (Registered un-recognised parties), appended to the said Notification-

(i) After the existing entries at Sl. No. 2069, the following entries shall be inserted under Column Nos. 1, 2 & 3, respectively: -

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1.	2.	3.
2070	Bharat Vahini Party	Matrimandir, Plot No. E-185, Ram Path, Shyam Nagar, Jaipur, Rajasthan- 302019.
2071	Makkal Needhi Maiaam	New # 4 Old# 172, Eldams Road, Alwarpet, Chennai, Tamil Nadu- 600018
2072	Nava Samaj Party	House No. 5-7, Buddharam Village, Gopalpeta Mondal, Wanaprhty District, Telangana- State.
2073	Sarvshakti Dal	D-60, Dev Nagar, Murlipura, Sikar Road, Jaipur, Rajasthan- 302039.
2074	Loktanter Suraksha Party	Khasra No. 21/9/1 and 10/2, Mangolpuri Industrial Area, Phase- I, Opp. TVS Agency, Near IBP Petrol Pump, Mangolpuri, New Delhi- 110083
2075	New Mother Land Party	F-111, South City, Rai Bareilly Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226025
2076	Bhartiya Jan Satta Party	House No. 11, Mukhya Gram + P.O - Bhaadvaasi, Via Katrathal, District- Sikar, Rajasthan-332024
2077	Aadarsh Sangram Party	D/S- 1252, Sector- D, L.D.A Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226012.
2078	Kalyana Kranthi Party	#57, 2 <sup>nd</sup> Floor, 3 <sup>rd</sup> Main Adithyanagar, 8 <sup>th</sup> Phase, JP Nagar, Bengaluru, Karnataka-560062
2079	Loktantrik Janta Dal	H.No. 861 P, Sector- 15, Part –II, Gurugram, Haryana- 122001
2080	Aapki Apni Party (Peoples)	Khasra No. 19/26, Near Amrit Vihar, Main Road Burari, Burari, New Delhi- 110084
2081	All India Makkal Nalvalvu Katchi	No. 2/259, Ondibadanayakanpatti, Palakkanuthu Post, Dindigul District, Tamil Nadu- 624619
2082	All Indians Party	Door No. 30-3-11, Assam Gardens, Visakhapatnam, Andhra Pradesh- 530020
2083	Mazdoor Kirayedar Vikas Party	Plot No. 116, Municipal No. 500/3E/4, Block No.30, Gali No. 6, Vishwas Nagar, Shahdra, Delhi- 110032
2084	My India Party	No. 447/265, 2 <sup>nd</sup> floor, Poonamallee High Road, Amnjikarai, Chennai, Tamil Nadu- 600029
2085	Vikassheel Insaan Party	Ghar Apna Apartment, Ward No. 38, Flat No. 604, Phase- 03, Abhiyanta Nagar, Ranjan Path, P.O.-Danapur Cantt, P.S- Rupaspur, District Patna, Bihar-801503
2086	Lokjagar Party	Plot No.17, Mehfil, Sanmarg Nagar, Hudkeshwar Road, District- Nagpur, Maharashtra- 440034
2087	Abhinav Rajasthan Party	C-14, Gandhi Nagar, Merta City, District- Nagaur, Rajasthan-341510
2088	Panch Party	Kailash Chandra Meena House at Khodki Dhani, Village & Post- Raisana, Tehsil- Nadoti, District- Karuli, Rajasthan- 322215
2089	Bhartiya Anarakshit Party	House No.08, Anandvan, NH-2, Nawada, Post- Aurangabad, District- Mathura, Uttar Pradesh-281006
2090	Peoples Representation for Identity and Status of Mizoram (PRISM) Party	A-16, Upper Republic, Aizawal, Mizoram- 796001
2091	Rashtriya Janraj Party	28-A, Vishal Kunj, Dehtora Road, Bodla, Agra, Uttar Pradesh - 282007.
2092	Garib Berozgar Vikas Party	Village- Champatpur, P.O- Ballia, Tehsil- Aawla, Vikas Khand- Alampur Jafarabad, District- Bareilly, Uttar Pradesh - 243402

2093	Saaf Party	547/229, Jalalpur, Rajaji Puram, Lucknow, Uttar Pradesh - 226017
2094	Rajasthan Janta Party	Village- Naithla, Post-Neethari, Tehsil- Malakhera, District- Alwar, Rajasthan- 301001
2095	Rashtriya Sahyog Party	F-130/4, Ground floor, Gautam Nagar, New Delhi- 110049
2096	Jago Hindustan Party	H. No. 368, Mohalla- Kalyani Devi Civil Lines, District- Unnao, Uttar Pradesh-209801
2097	New India United Party	No. 4, Second Floor, Second Cross, D.R.Bendre Layout, Gubbi Cross, 350/1/4, Kothanur, Bangalore, Karnataka- 560077
2098	Jai Swaraj Party	10-105/1/B/2, First Floor, Road No.- 2, New Gaddiannaram Colony, Dilsukh Nagar, Hyderabad, Telangana - 500060
2099	Khushhal Kisan Party	House No.- 125, Anaj Mandi ke Paas, Nagar Road Deeg, Tehsil- Deeg, District- Bharatpur, Rajasthan- 321203
2100	Bahujana Left Party	H.No. 6-73, SC Wada, Peddalingapur Village, Mandal Illanthakunta, District-Rajanna Sircilla, Telangana State- 505405
2101	Aam Nagrik Yuva Party	Village- Nalhad, Post office- Nalhad, Tehsil and District- Nuh, Haryana- 122107
2102	Ambedkar Samaj Vikas Party	H.No.- 49, Mohalla- Tilak Nagar, Yamuna Nagar, Tehsil- Jagadhri, District- Yamuna Nagar, Haryana- 135003
2103	Jana Jagruti Party	D.No. 78-12-2, Flat No. 101-102, Shanti Residency, Syamala Nagar, Rajahmundry, East Godavari District, Andhra Pradesh- 533103
2104	Navsarjan Bharat Party	House No.- 492, Fal Faliya, Opp. Krishna Petrol Pump, Vaghadhra Road, Dadra, Dadra & Nagar Haveli- 396193
2105	Bhartiya Veer Dal	Khewat/Khasra No.- 39/56, Mustil No.- 14, Moja- Ghurason, Post- Tigaon, Ballabgarh, Faridabad, Haryana- 121101
2106	Hindustan Tehreek-E-Insaaf	H.No. 1-12-386, Rajahawdi, Patvadi Naka Bahar Bhuj, Tahsil- Bhuj, District- Kachchh, Gujarat – 370001
2107	Raita Bharat Party	Sector No. 31, Plot No. 31/A, Navanagar, Bagalkot, Karnataka-587101
2108	Karnataka Karmikara Paksha	No. 120, 1 <sup>st</sup> Floor, St. Johns Church Road, Near Coles Park, Bangalore, Karnataka-560005
2109	Naam Indiar Party	73F/1A, Polepettai, Thoothukudi, Tamil Nadu- 628002
2110	All India MGR Makkal Munnetra Kazhagam	Flat No.- A-4, Srinivas Arcade, No. 1/2, Arunachalam Road, Chennai, Tamil Nadu- 600093
2111	All India Praja Party	H.No.- 5-1-240, 2 <sup>nd</sup> floor, Jambagh, Street No.- 17, Near Flower Market, Hyderabad, Telangana- 500095
2112	Sanjhi Virasat Party	506, Chanderlok colony, Street No.- 3, Mandoli Road, Shahdra, Delhi- 110093
2113	Bhartiya Janata Vikas Party	D-4/2, Sector- 20, Rohini, Delhi- 110086
2114	Rashtriya Atulya Yuva Party	Plot No. 291, Flat No. 301, Shiv Nagar-1, Murlipura, Jaipur, Rajasthan-303328
2115	Hamdard Party	Mohalla - Sayyadvada, Post- Satti Masjid, City – Ghazipur, District- Ghazipur, Uttar Pradesh- 233001
2116	All Indian Rajiv Congress Party	41/238, Alapur House, Radhakrishna Mandir Lane, Narhi, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
2117	Jantantrik Vikas Party	201, P.Mall, Second Floor, Exhibition Road, District- Patna, Bihar-800001
2118	Youth India Peace Party	Assessment No.- 18, Village- Katha No.- 215, Yeshwanthpur Hobli, BangaloreNorth Taluk, Bangalore, Karnataka- 560022
2119	Marumalarchi Janatha Katchi	62/5, Pillayar Kovil Street, Pappireddipatti- PO &TK, Dharmapuri- District, Tamil Nadu- 636905



2120	Bhartiya Apna Adhikar Party	Near Kirar Hostel, Rampuri Aou Khana Kala Shabad, Pratap Aashram, Gwalior, Madhya Pradesh - 474012
2121	Green Party of India	36-C, Govindpuri, Ramnagar, Sodala, Jaipur, Rajasthan-302006
2122	Rashtriya Mahajan Shakti Party	H.No. 843/39, Shiv Utsav Vatika, New Railway Station Marg, Ater Road, Bhind, Madhya Pradesh- 477001
2123	India Praja Bandhu Party	H. No. 18-1-317/A/68/1, Shivaji Nagar, Uppuguda, Hyderabad, Telangana- 500053
2124	Adarsh Nyay Rakshak Party	Village and Post- Matool, Tehsil- Khargapur, District- Tikamgarh, Madhya Pradesh-472115
2125	All India Jananayaka Makkal Kazhagam	No. 137, Kesava Garden, 3 <sup>rd</sup> Block, Demellous Road, Channai, Tamil Nadu- 600012
2126	Telangana Jaghir Party	H.No. 4-32/1, Munuganoor Village, Abdullapurmet Mandal, Ranga Reddy District, Telangana State- 501511
2127	All India Jaihind Party	D.No. 22-77, Bhagat Singh Nagar, 6 <sup>th</sup> Line, Yanamalakuduru, Vijaywada, Andhra Pradesh- 520007
2128	Swadesh Jan Sewak Party	J.P.Nagar, NaiBasti, Premchak Urf Umarganj, Ballia, Uttar Pradesh- 277001
2129	Social Justice Party of India	H. No. 2-97, Chinavirala- Village, Hayathnagar Mondal, Ranga Reddy- District, Telangana State- 501505
2130	Kanshiram Bahujan Dal	Khata No. 208, Ka Arajai No. 159M/0.0810, Village- Ali Khanpur, P.S.- Line Bazar, Tehsil- Sadar, Pargana- Haveli, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222132
2131	Nai Kranti Party	Baba Mritunjaynath Mandir, Kumharan Tola First, Gola Gokarannath, Distric- Likhampur- Kheri, Uttar Pradesh- 262802
2132	Telangana Prajala Party	H.No.12-13-830/15, Gokulnagar, Street No. 1, Tarnaka, Secunderabad, Telangana- 500017
2133	Bhartiya Amrit Party	Khasra No. 661/3, Kachhariya, Bhopal road Biaora, District- Raigarh, Madhya Pradesh-465674
2134	Annan Tamilaga Rising Kazhagam	223, GST Road, Chromepet, Chennai, Tamil Nadu-600044
2135	Bhartiya Dharmanirpeksha Party	H.No. 146, Village- Kharagpur, Post-Chaubepur, Thana- Chaubepur, District- Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-209203
2136	Chhattisgarh Ekta Party	H.No. 182/2, Ward No. 08, Bade Padarmooda Road, Jamgahan, Tehsil- Malkharoda, District- Janjgir Champa, Chhattisgarh- 495691
2137	Navarang Congress Party	D.No. 866/1, Pedavadlapudi Village, Mangalagiri Mandal, Guntur District, Andhra Pradesh- 522302
2138	Janta Dal Hindustani	Khata No. 64 (Old), Plot No. 370 (Old), New Plot No. 838, 839, 744, 745, Thana No. 314, Village- Aabgila, Thana- Mufsil, Anchal- Manpur, District- Gaya, Bihar-823003
2139	All India Samata Party	H.No. 23-8/3, Millennium Township Shadnagar, Farooqonagar Mandal, Ranga Reddy District, Telangana State-509216
2140	Rajnaitik Kranti Dal	House No. 55, Baduzai-2, Near Old Over Bridge, District- Shahjahanpur, Uttar Pradesh- 242001
2141	Vishwa Adarsh Bharat Party	House No. 251, Mega Pathology, Behind of Court , Sookh Vilas Colony, Badwani, Tehsil- Badwani, District- Badwani, Madhya Pradesh- 451551
2142	Sarvadharam Party (Madhya Pradesh)	120/1, Ashoka Garden, Tahasil – Nazul, Distt.- Bhopal - 462023, Madhya Pradesh
2143	Bundelkhand Vikas Dal	C/o Shiv Narayan Khare (Advocate), 116/3 Shivalaya Kishor Ganj, Town Area, Kulpahar, District - Mahoba, Uttar Pradesh-210426

- (ii) Against Sl. No.25, in respect of 'Aap Sabki Apni Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'Vinayaka Height at Main Road, Tarbahar, Ward No.15, Bilaspur, Chhattisgarh – 495001'.
- (iii) Against Sl. No.93, in respect of 'Akhil Bharatiya Jan Sangh', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'T-14, Okhla Industrial Area Phase-II, New Delhi-110020'.
- (iv) Against Sl. No.1043, in respect of 'Labour Party of India (V.V. Prasad)', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'A-160, 2nd Floor, Vikas Marg, Shakarpur, Near Metro Pillar No.42, Delhi – 110092'.
- (v) Against Sl. No.1396, in respect of 'Proutist Bloc, India', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'C/o Shri Ramesh Kumar, H.N.A-37 (Khasra No.2167/845), Harshroop Colony, Fatehpur Beri, New Delhi – 110074'.
- (vi) Against Sl. No.2043, in respect of 'Yuva Telangana Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'Plot No. 143&144, Rock Town Colony, Alkapuri, Mansoorabad, LB Nagar, Hyderabad- 500068'.
- (vii) Against Sl. No.549, the existing entry under column 2 in respect of 'Bhartiya Sarvjan Hitey Samaj Party' shall be substituted by the entry 'Bhartiya Sarvjan Hitay Samaj Party'.

2. In Table IV (List of Free Symbols), appended to the said Notification-

- (i) After the existing entries at Sl. No. 161, the following entries shall be inserted: -

**“162. Key**

*(In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and West Bengal)”*

By Order,

N.T. BHUTIA, Secy.  
Election Commission of India

By Order,  
CHARANJIT SINGH, Election Officer (COE), Delhi